



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1936 (श0)

(सं0 पटना 824) पटना, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2014

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त 2014

सं0 22/नि0सि0(सम)-02-04/2014/1107—कमला बलान दायों तटबंध के कि0मी0 70.80 एवं कि0मी0 74.00 के पास कुम्हारौल गाँव एवं बौड़ ग्राम के पास दिनांक 15.08.2014 को हुए टूटान आदि आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए श्री सच्चिदानन्द सिंह, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-2, झंझारपुर को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सच्चिदानन्द सिंह, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-2, झंझारपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. निलम्बन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, दरभंगा निर्धारित किया जाता है ।

3. निलम्बन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

4. इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 824-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>